

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 ईसीआई/पीएन/30/2015

दिनांक :07 मई, 2015

प्रेस नोट

विषय: विधान सभा के सदस्यों द्वारा तेलंगाना विधान परिषद के लिए 6 सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तेलंगाना विधान परिषद के 7 सदस्यों की पदावधि दिनांक 29 मार्च, 2015 को उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो गई है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य - तेलंगाना		
क्रम सं.	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री के.आर. अमोस	29.03.2015
2.	श्री नागापुरी राजालिंगम	29.03.2015
3.	श्री पीर शब्बीर अहमद	29.03.2015
4.	श्री बालासानी लक्ष्मीनारायण	29.03.2015
5.	श्री बोडाकुन्ति वेंकटेश्वरलु	29.03.2015
6.	श्री के. यादवे रेड्डी	29.03.2015
7.	श्रीनिवास डी.	29.03.2015

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसार, विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली तेलंगाना विधान परिषद की सीटों की संख्या 14 निर्धारित की गई है परन्तु उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तेलंगाना विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 15 अर्थात् एक अधिक नियत की

गई है। उक्त अधिनियम की धारा 108 के अनुसार उक्त असंगति को दूर करने के लिए यह असंगति केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) को संदर्भित की गई थी। गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि उपर्युक्त सात सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण, श्री के.आर. अमोस द्वारा रिक्त की गई एक सीट अस्तित्व में नहीं रहेगी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड के उप-खंड (ख) के अनुसार भरी नहीं जाएगी और शेष छः सीटें विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएंगी। अर्थात्, उपरोक्त सात (7) रिक्तियों की बजाय छः (6) रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन आयोजित किया जा सकता है।

2. तदनुसार, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार रिक्त हुई उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा तेलंगाना विधान परिषद हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख एवं दिन
1.	अधिसूचना जारी करना	14 मई, 2015 (गुरुवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	21 मई, 2015 (गुरुवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	22 मई, 2015 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	25 मई, 2015 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	01 जून, 2015 (सोमवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वा. 9:00 बजे से अप. 4:00 बजे तक
7.	मतों की गणना	01 जून, 2015 (सोमवार), अप. 5:00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	03 जून, 2015 (बुधवार)

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक